



सत्यमेव जयते

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड



केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सं. (CEN) 01/2019

(एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के विभिन्न पदों के तहत भर्ती के लिए)
द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी-2)

प्रश्न-पत्र, विकल्प, उत्तर, उत्तरकुंजी देखना और प्रश्न/विकल्प/कुंजी पर आपत्ति(यां), यदि कोई हो, तो दर्ज करना

सीईएन 01/2019 के अंतर्गत पे लेवल 5, 3, और 2 के लिए दूसरे चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट दिनांक 12.06.2022 से 17.06.2022 तक आयोजित किया गया था। इस सीबीटी -2 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रश्न पत्र, उत्तर और उत्तरकुंजी देखने के लिए, रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर एक लिंक प्रदान किया जायेगा जो दिनांक 22.06.2022 को 17:00 बजे से दिनांक 27.06.2022 को 23:55 बजे तक सक्रिय रहेगा।

उपरोक्त विवरण को देखने के बाद उम्मीदवार, प्रश्नों, विकल्पों और कुंजियों के संबंध में आपत्ति, यदि कोई हो, तो दर्ज कर सकते हैं जिसके के लिए समय सारणी, शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. समय सारणी

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	तिथि एवं समय
1	प्रश्न, विकल्प और कुंजी देखना एवं आपत्तियां दर्ज करना तथा आपत्तियों हेतु ऑनलाइन शुल्क भुगतान	22.06.2022 को 17:00 बजे से
2	प्रश्न पत्र देखने, आपत्ति दर्ज करने और पेमेंट विंडो को बंद करने की तिथि एवं समय:	27.06.2022 को 23:55 बजे तक

2. शुल्क

आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क रु. 50/- (लागू बैंक सेवा शुल्क अतिरिक्त)। यदि दर्ज की गई आपत्ति सही पायी जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क उम्मीदवार को लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद वापस कर दिया जायेगा। रिफंड उस खाते में किया जायेगा जिस खाते से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

नोट: डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए

- सभी बैंक के Rupay Debit Cards स्वीकार्य है।
- SBI VISA/Master debit cards स्वीकार्य है।
- दूसरे बैंक का VISA/Master debit cards का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

3. आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया

आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया रेल भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक में उपलब्ध होगी।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि और समय यानी दिनांक 27.06.2022 को 23:55 बजे से पहले आपत्ति(यां), यदि कोई हों, तो दर्ज कर सकते हैं, निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्रश्नों/विकल्पों/कुंजी आदि पर उम्मीदवारों के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं होगा।

5. दर्ज की गई आपत्तियों पर रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस मामले में उम्मीदवारों से पत्राचार पर आगे विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक : 21.06.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड